

ADDICTIVE LEARNING TECHNOLOGY LIMITED (Formerly Addictive Learning Technology Private Limited)

(CIN: L74110HR2017PLC118029)

Registered office: Space Creattors Heights, 3rd Floor, Landmark Cyber Park, Golf Course Extension, Section 67, DLF Qe, Gurgaon, Haryana 122002, India Ph. No.: +91 8047486192, E-mail: compliance@lawsikho.in

Date: 30th August, 2025

To
The Manager- Listing
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex,
Bandra (E), Mumbai-400 051

SYMBOL: LAWSIKHO ISIN: INEORDH01021

Sub.:Newspaper Advertisement – Public Notice to the Members regarding the 8th Annual General Meeting (AGM) of the Company scheduled on Friday, September 26, 2025 at 11:00 A.M. through Video Conferencing ("VC")/Other Audio-Visual Means ("OAVM"

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, and Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copies of newspaper advertisements published on Saturday, August 30, 2025, in respect of the 8th Annual General Meeting ("AGM") of the Company scheduled to be held on Friday, September 26, 2025 at 11:00 A.M. through Video Conferencing ("VC")/Other Audio-Visual Means ("OAVM").

The advertisements were published in:

Financial Express (English daily with nationwide circulation), and **Jansatta** (vernacular daily, circulated in the district of the Company's registered office).

The Notice of AGM and Annual Report for FY 2024–25 will be filed in due course.

Kindly take the same on record.

For and on behalf of **Addictive Learning Technology Limited**

Komal Shah Company Secretary and Compliance Officer

FINANCIAL EXPRESS

Continued from previous page. **Final Demand**

A summary of the final demand as per NSE as on the Bid/Issue Closing Date at different Bid prices is as under:

Sr. No.	Bid Price	No. of Equity Shares	% to Total	Cumulative Share Total	Cumulative % of Total
1	82	5,40,800	0.08	5,40,800	0.08
2	83	65,600	0.01	6,06,400	0.09
3	84	64,000	0.01	6,70,400	0.10
4	85	3,48,800	0.05	10,19,200	0.16
5	86	2,09,600	0.03	12,28,800	0.19
6	87	63,99,50,400	99.81	64,11,79,200	100.00
	Total	64,11,79,200	100.00		
	- CODENTO		1,350,11,300		

The Basis of Allotment was finalised in consultation with the Designated Stock Exchange, being NSE Limited on August 28, 2025.

1) Allotment to Individual Investors (After Rejections)

The Basis of Allotment to the Individual Investors, who have Bid at cut-off Price or at or above the Issue Price of Rs. 87/- per Equity Share, was finalized in consultation with NSE Limited. The category has been subscribed to the extent of 157.44 times. The total number of Equity Shares Allotted in this category is 15.74.400 Equity Shares to 492. successful applicants. The details of the Basis of Allotment of the said category is as under:

SI no	No. of Shares applied for (Category wise)	No. of Applications received	% to total	Total No. of Equity Shares applied in this category	% of total	Proportionate Shares available	allo	atio of ttees to dicants	Number of successful applicants (after rounding)	Total No. of shares allocate allotted	Surplus/ Deficit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	. 9	(10)	(12)	(14)	(16)
. 1	3200	77,462	100.00	24,78,78,400	100.00	3200	2	135	492	1574400	0

Allotment to Non-Institutional Investors- Above Rs. 2 Lakhs and Upto Rs. 10 Lakhs (After Rejections)

Number of Total No. of

The Basis of Allotment to the Non-Institutional Investors, who have Bid at cut-off Price or at or above the Issue Price of Rs. 87/- per Equity Share, was finalized in consultation with NSE Limited. The category has been subscribed to the extent of 227.45 times. The total number of Equity Shares Allotted in this category is 2,25,600 Equity Shares to 47 successful applicants. The details of the Basis of Allotment of the said category is as under

Proportionate Ration of Total No. of Surplus/

Sr. No	No. of Shares applied for (Category wise)	applications received	% to total	Shares applied in each category	% to total	shares available	allo	ttees to	shares allocated/alloted	Deficit (14)-(7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(10)	(14)	(16)
1	4,800	9141	91.56	4,38,76,800	85.51	4,800	43	9141	2,06,400	
2	6,400	305	3.05	19,52,000	3.80	4,800	1	305	4,800	35
3	8,000	116	1.16	9,28,000	1.81	4,800	1	116	4,800	Ú se
4	9,600	106	1.06	10,17,600	1.98	4,800	1	106	4,800	
5	11,200	316	3.17	35,39,200	6.90	4,800	1	316	4,800	, 84
	Grand Total	9984	100.00	5,13,13,600	100.00	9,984	47		2,25,600	. 94

Allotment to Non-Institutional Investors- Above Rs. 10 Lakhs (After Rejections)

The Basis of Allotment to the Non-Institutional Investors, who have Bid at cut-off Price or at or above the Issue Price of Rs. 87/- per Equity Share, was finalized in consultation with NSE Limited. The category has been subscribed to the extent of 421.65 times. The total number of Equity Shares Allotted in this category is 4,49,600 Equity Shares to 93 successful applicants. The details of the Basis of Allotment of the said category is as under:

Sr. No	No. of Shares applied for (Category wise)	Number of applications received	% to total	Total No. of Shares applied in each category	% to total	No. of Equity Shares Allotted per Bidder	Ratio	Equity Shares Allotted
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
1	12,800	13455	95.87	17,22,24,000	90.85	4,800	90:13455	4,32,000
2	14,400	238	1.70	34,27,200	1.81	4,800	2:238	9,600
3	16,000	127	0.90	20,32,000	1.07	4,800	1:127	4,800
4	17,600	28	0.20	4,92,800	0.26	4,800	0:28	0
5	19,200	18	0.13	3,45,600	0.18	4,800	0:18	0
6	20,800	6	0.04	1,24,800	0.07	4,800	0:6	0
7	22,400	18	0.13	4,03,200	0.21	4,800	0:18	0
8	24,000	15	0.11	3,60,000	0.19	4,800	0:15	0
9	25,600	13	0.09	3,32,800	0.18	4,800	0:13	0
10	27,200	19	0.14	5,16,800	0.27	4,800	0:19	0
11	28,800	6	0.04	1,72,800	0.09	4,800	0:6	0
12	30,400	2	0.01	60,800	0.03	4,800	0:2	0
13	32,000	13	0.09	4,16,000	0.22	4,800	0:13	0
14	33,600	2	0.01	67,200	0.04	4,800	0:2	0
15	35,200	2	0.01	70,400	0.04	4,800	0:2	0
16	36,800	3	0.02	1,10,400	0.06	4,800	0:3	0
17	38,400	2	0.01	76,800	0.04	4,800	0:2	0
18	40,000	5	0.04	2,00,000	0.11	4,800	0:5	0
19	46,400	1	0.01	46,400	0.02	4,800	0:1	0
20	48,000	6	0.04	2,88,000	0.15	4,800	0:6	0
21	49,600	1	0.01	49,600	0.03	4,800	0:1	0
22	51,200	2	0.01	1,02,400	0.05	4,800	0:2	0
23	52,800	1	0.01	52,800	0.03	4,800	0:1	0
24	54,400	1	0.01	54,400	0.03	4,800	0:1	0
25	57,600	6	0.04	3,45,600	0.18	4,800	0:6	0
26	64,000	2	0.01	1,28,000	0.07	4,800	0:2	0
27	70,400	1	0.01	70,400	0.04	4,800	0:1	0
28	72,000	1	0.01	72,000	0.04	4,800	0:1	0
29	75,200	1	0.01	75,200	0.04	4,800	0:1	0
30	76,800	2	0.01	1,53,600	0.08	4,800	0:2	0
31	78,400	1	0.01	78,400	0.04	4,800	0:1	0
32	80,000	2	0.01	1,60,000	0.08	4,800	0:2	0
33	81,600	1	0.01	81,600	0.04	4,800	0:1	0
34	83,200	1	0.01	83,200	0.04	4,800	0:1	0
35	89,600	9	0.01	89,600	0.05	4,800	0:1	0

Sr. No	No. of Shares applied for (Category wise)	Number of applications received	% to total	Total No. of Shares applied in each category	% to total	No. of Equity Shares Allotted per Bidder	Ratio	Total No. of Equity Shares Allotted
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		12
36	92,800		0.01	92,800	0.05	4,800	0:1	0
37	96,000	2	0.01	1,92,000	0.10	4,800	0:2	0
38	1,02,400	1	0.01	1,02,400	0.05	4,800	0:1	0
39	1,10,400	1	0.01	1,10,400	0.06	4,800	0:1	0
40	1,12,000	513	0.01	1,12,000	0.06	4,800	0:1	0
41	1,13,600	4	0.03	4,54,400	0.24	4,800	0:4	0
42	1,15,200	3	0.02	3,45,600	0.18	4,800	0:3	0
43	1,28,000	3	0.02	3,84,000	0.20	4,800	0:3	0
44	1,50,400	1	0.01	1,50,400	0.08	4,800	0:1	0
45	1,60,000	1	0.01	1,60,000	0.08	4,800	0:1	0
46	1,71,200	1	0.01	1,71,200	0.09	4,800	0:1	0
47	1,88,800	1	0.01	1,88,800	0.10	4,800	0:1	0
48	2,19,200	1	0.01	2,19,200	0.12	4,800	0:1	0
49	2,28,800	1	0.01	2,28,800	0.12	4,800	0:1	0
50	2,32,000	3	0.02	6,96,000	0.37	4,800	0:3	0
51	2,86,400	1	0.01	2,86,400	0.15	4,800	0:1	0
52	3,82,400	1	0.01	3,82,400	0.20	4,800	0:1	0
53	3,93,600	1	0.01	3,93,600	0.21	4,800	0:1	0
54	4,62,400	1	0.01	4,62,400	0.24	4,800	0:1	0
55	5,12,000	1	0.01	5,12,000	0.27	4,800	0:1	0
56	5,66,400	1	0.01	5,66,400	0.30	4,800	0:1	0
57	- Control of the Cont	from Serial no 01 to 57 f	The second in the latest party of the second	TOTAL CONTRACTOR AND	-	1,600	2:93	3,200
-26.7101	Grand Total	14034	100.00	18,95,76,000	100.00	ARTEST .	5	4,49,600

4) Allotment to QIBs excluding Anchor Investors (After Hejections)

Allotment to QIBs, who have bid at the Issue Price of Rs. 87/- per Equity Share or above, has been done on a proportionate basis in consultation with NSE Limited. This category has been subscribed to the extent of 84.52 times of QIB portion. The total number of Equity Shares allotted in the QIB category is 8,99,200 Equity Shares, which were allotted to 40 successful Applicants.

Category	FI'S/BANK'S	MF'S	IC.2	NBFC'S	AIF	FPC/FII	Others	Total
QIB	35,200	49,600	19,200	3,44,000	2,19,200	2,32,000		8,99,200
5) Allocation to Mar	ket Maker (After Rejection	ons & Withdrawa	I): The Basis of A	lotment to Market N	laker who have bid	at Issue Price of ₹	37/- per Equity Sh	ares or above, was

finalized in consultation with NSE Limited. The category was subscribed 1.00 times i.e. for 2,78,400 Equity Shares the total number of shares allotted in this category is 2,78,400 Equity Shares. The category wise details of the Basis of Allotment are as under: No of Charge No of W to total Total No of Equity W of total No of Equity Charge Patin Total Number of Curplus/

Applied for (Category wise)	Applications received	76 IU IUIAI	Shares applied in this Category	76 UI 1ULAI	allocated/ allotted per Applicant	ne	stio	shares allotted	Deficit
68,800	4	50.00	68,800	50.00	68,800	1	1	68,800	0
2,09,600	36	50.00	2,09,600	50.00	2,09,600	18	1	2,09,600	0
Total	1	100.00	2,78,400	100.00	2,78,400			2,78,400	0

6) Allotment to Anchor Investors (After Rejections)

(MUFG MUFG Intime

The Company in consultation with the BRLM has allocated 13,44,000 Equity Shares to 10 Anchor Investors at the Anchor Investor issue price of Rs. 87/- per Equity Shares in accordance with the SEBI ICDR Regulations. This represents 60% of the QIB Category

CATEGORY	FIS/BANKS	MPS	IC'S	NBFC'S	AIF	FPI/FPC	Others	TOTAL
ANCHOR	25	8	55	1,15,200	8,06,400	4,22,400	8	13,44,000

The Board of Directors of our Company at its meeting held on August 28, 2025 has taken on record the basis of allotment of Equity Shares approved by the Designated Stock Exchange, being NSE Limited and has allotted the Equity Shares to various successful applicants. The Allotment Advice Curn Refund Intimation will be dispatched to the address of the investors as registered with the depositories. Further, instructions to the SCSBs have been dispatched/ mailed for unblocking of funds and transfer to the Public Issue Account on or before August 28, 2025 and no payment has been made to Non syndicate member. In case the same is not received within ten days, investors may contact the Registrar to the Issue at the address given below. The Equity Shares allotted to the successful allottees shall be uploaded on or before August 29, 2025 for credit into the respective beneficiary accounts subject to validation of the account details with the depositories concerned. The Company is in the process of obtaining the listing and trading approval from NSE Limited and the trading of the Equity Shares is expected to commence on September 01, 2025.

Note: All capitalized terms used and not defined herein shall have the respective meaning assigned to them in the Prospectus dated August 28, 2025 ("Prospectus").

On Page no. 86 of the Prospectus under shareholding pattern, 1,28,93,750 Equity Shares of Promoter-Promoter Group and 300,000 Equity Shares of Public Category are to

be considered as Locked In.

INVESTORS, PLEASE NOTE

CORRIGENDUM TO THE PROSPECTUS

The details of the allotment made would also be hosted on the website of the Registrar to the Issue, MUFG Intime India Private Limited (Formerly Link Intime India Private Limited) at www.in.mpms.mufg.com

All future correspondence in this regard may kindly be addressed to the Registrar to the Issue quoting full name of the First/Sole applicants, serial number of the Application Form, number of shares applied for and Bank Branch where the application had been lodged and payment details at the address of the Registrar given below:

> (Formerly Link Intime India Private Limited) Address: C-101, Embassy 247, Lal Bhadur Shastri Marg, Vikhroli (West), Mumbai 400 083 Maharashtra, India Contact Person: Shanti Gopalkrishnan

Tel: +91 810 811 4949 Fax: N.A.

Email: classicelectrodes.ipo@in.mpms.mufg.com Investor grievance e-mail: classicelectrodes.ipo@in.mpms.mufg.com

Website: www.in.mpms.mufg.com SEBI Registration No.: INR000004058

MUFG Intime India Private Limited

On behalf of Board of Directors FOR, CLASSIC ELECTRODES (INDIA) LIMITED

Place: Kolkata, India

Date: August 29, 2025

Ms. Bhagyashree Agarwal Company Secretary & Compliance Officer

THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARE ON LISTING OR THE BUSINESS PROSPECTS OF CLASSIC ELECTRODES (INDIA) LIMITED.

Disclaimer: CLASSIC ELECTRODES (INDIA) LIMITED is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public offer of its Equity Shares and has filed the Prospectus with the Registrar of Companies, Kolkata on August 28, 2025 and thereafter with SEBI and the Stock Exchange. The Prospectus is available on the website of NSE SME at https://www.nseindia.com/market-data/all-upcoming-issues-ipo and is available on the websites of the BRLM at www.gyrcapitaladvisors.com. Any potential investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to the same, please refer to the Prospectus including the section titled "Risk Factors" beginning on page 35 of the Prospectus.

The Equity Shares have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended or any state securities laws in the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act, 1933 and in accordance with any applicable U.S. State Securities laws. The Equity Shares are being issued and sold outside the United States in 'offshore transactions' in reliance on Regulation "S" under the Securities Act, 1933 and the applicable laws of each jurisdiction where such issues and sales are made. There will be no public offering in the United States.

SKYWEB INFOTECH LIMITED CIN: L72200DL1985PLC019763

Registered Office: K-20, 2nd Floor, Lajpat Nagar-II, New Delhi-110024 Corporate Office: D-348, Sector-63, Noida, Uttar Pradesh-201307
Website: www.skywebindia.in | E-mail ID: info@skywebindia.com | Ph. No. 011-29840906

NOTICE OF 40™ ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 40th Annual General Meeting ("AGM") of the members of Skyweb Infotech Limited ("the Company") will be held on Tuesday, the 23rd Day of September, 2025 at 01:00 P.M. (IST) at the Registered Office of the Company situated at K-20, 2nd Floor, Laipat Nagar-Pursuant to the General Circular Nos. 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 19/2021, 21/2021

02/2022, 10/2022, 09/2023 dated April 08, 2020, April 13, 2020, May 05, 2020, January 13 2021, December 08, 2021, December 14, 2021, May 05, 2022, December 28, 2022 and September 25, 2023 respectively, followed by Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/ CIR/2024/133 dated October 03, 2024 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") and all other applicable provisions of Companies Act, 2013 and notifications issued by the MCA and SEBI, only electronic copies of the Notice of AGM along with the Annual Report for the Financial Year 2024-25 have been e-mailed to all the shareholders whose e-mail addresses are registered with the Company/RTA/Depositories, to transact the business as set out in the Notice of AGM. The e-mailing of Notice of AGM have been completed on 29th August, 2025 in conformity with regulatory requirements. As per Regulation 36(1)(b) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations

2015, the letter mentioning the web-link, where the complete details of Annual Report are available, is being sent to those member(s) who have not registered their e-mail address(es) either with the Company/RTA/Depositories. Notice of the AGM along with the Annual Report for the Financial Year 2024-25 is also available on

the Company's website at www.skywebindia.in and on the website of Stock Exchange at www.msei.in and on CDSL's website at www.evotingindia.com. ursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Ma Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing facility for remote e-voting through

Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") through its website www.evotingindia.com to

enable the members to cast their vote electronically Shareholders, whose names are recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date i.e. Tuesday, 16th September, 2025 shall be entitled to avail the facility of remote e-Voting as well as voting through Poll at the AGM

The remote e-Voting period will commence from Saturday, 20th September, 2025 at 9:00 A.M. (IST) and will end on Monday, 22" September, 2025 at 5:00 P.M. (IST) Remote e-Voting shall not be allowed beyond the aforesaid period. A member may participate in the general meeting even after exercising his/her right to vote through remote e-Voting but shall not be entitled to vote again in the meeting. The members present at the meeting, having not exercised their vote by e-Voting shall be entitled to vote by means of poll.

The persons who have acquired shares and have become member(s) of the Company after the dispatch of notice may obtain the login ID and password from Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") by sending an e-mail to helpdesk evoting@cdslindia.com or may contact on the help desk no. 18002109911. Above mentioned person can also be contacted to address the grievances connected with facility for e-Voting by electronic means.

By Order of the Board For Skyweb Infotech Limited

Date: 29th August, 2025 Place: New Delhi

Akshit Singla Company Secretary & Compliance Officer

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.



ADDICTIVE LEARNING TECHNOLOGY LIMITED (Formerly Addictive Learning Technology Private Limited)

(CIN: L74110HR2017PLC118029) Registered office: Space Creattors Heights, 3rd floor, Landmark Cyber Park, Golf

Course Extension, Sector 67, Gurgaon, Haryana India, 122002 Ph. No.: +91 8047486192, E-mail: compliance@lawsikho.in

INFORMATION REGARDING 8™ ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING ('VC')/OTHER AUDIO-VISUAL MEANS ('OAVM')

This is to inform you that the 8th Annual General Meeting ('AGM') of Addictive Learning Technology Limited ('Company') will be held through VC/ OAVM on Friday, September 26, 2025, at 11:00 A.M (IST), in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act. 2013 ('the Act') and the rules made thereunder. read with the latest General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024, and other related circulars issued earlier by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 dated October 03, 2024, issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI), and other applicable circulars issued in this regard (collectively referred as 'Circulars'). In compliance with the above Circulars, the Notice and Annual Report For FY 2024-25

will be sent, in due course, only through electronic mode to all the Members whose mail addresses are registered with the Company/Depository Participants ("DPs"). The same will also be available on the website of the Company at www.lawsikho.com, Stock Exchange i.e., National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and Registrar and Share Transfer Agent ('RTA') of the Company viz., Maashitla Securities Private Limited at www.maashitla.com. Additionally, in accordance with Regulation 36(1)(b) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") a letter providing the web-link, including the exact path where complete details of the Notice and Annual Report are available, will be sent to those shareholder(s) who have not registered their email addresses with Company/RTA/ Depository participant(s). Members attending the meeting through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Act.

Shareholders will have an opportunity to cast their votes either remotely or through e-voting during the AGM on the business to set forth in the Notice of the AGM through electronic voting system. The manner of voting remotely or through e-voting during the AGM for shareholders holding shares in dematerialised form, physical form and for shareholders who have not registered their email addresses shall be provided in the Notice convening the AGM

Manner of registering/updating email address: Members holding shares in dematerialised mode, who have not registered

- / updated their e-mail address, are requested to register / update their e-mail address with the Depository Participant(s) where they maintain their demat Further, In terms of MCA Circulars, the Company has also enabled the Members to
- update their e-mail address with the Company for the limited purpose of receiving the Annual Report including Notice of the AGM for FY 2024-25 (including e-voting instructions along with the User ID and the Password to enable e-voting) electronically, by sending an email on gogreen@maashitla.com along with signed and scanned copy of the request letter providing the email address, mobile number, self-attested PAN copy and Client Master copy in case of electronic folio and copy of share certificate in case of physical folio. By Order of the Board of Directors

For Addictive Learning Technology Limited

Date: August 29, 2025 Komal Shah Place: Gurgaon Company Secretary and Compliance Officer



ACUTAAS CHEMICALS LIMITED

(Formerly known as AMI ORGANICS LIMITED) CIN: L24100GJ2007PLC051093

Registered Address: Plot No. 440/4, 5 & 6, Road No. 82/A, GIDC Sachin, Surat-394 230 Email: investorinfo@acutaas.com Website: www.acutaas.com

INFORMATION REGARDING 18TH ANNUAL GENERAL MEETING

The Eighteenth (18") ANNUAL GENERAL MEETING ("AGM") of the members of ACUTAAS CHEMICALS LIMITED ("COMPANY") will be held on Thursday, September 25, 2025 at 11.30 a. m. through Video Conferencing ('VC') / Other Audio Visual Means ('OVAM') facility in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ('the Act') and the Rules made thereunder and read with Ministry of Corporate Affairs circular dated 5th May, 2020 read with circulars dated 8" April, 2020, 13" April, 2020, 13" January, 2021. 14" December, 2021, 28" December, 2022 and Circular 09/2024 dated September 19, 2024 (collectively referred to as 'MCA Circulars') and Securities and Exchange Board of India ('SEBI') vide its circulars dated 12" May, 2020, 15" January, 2021, 13" May, 2022, January 5, 2023 and October 3, 2024 (collectively referred to as 'SEBI Circulars') to transact the businesses as set forth in the notice of the 18th AGM.

In compliance with above circulars, the notice of the 18" AGM and Annual Report for the financial year 2024-25 will be sent, in due course, only through electronic mode to those members whose email addresses are registered with the Company / registrar and share transfer agent or with respective depository participants ('DP').

The Members whose e-mail addresses are not registered with the DPs or the Company MUFG Intime, are requested to register their e-mail addresses. Further pursuant to the Finance Act, 2020, dividend income is taxable in the hands of shareholders with effect from April 1, 2020 and the Company is required to deduct tax at source from dividend paid to shareholders at the prescribed rates. For the prescribed rates for various categories, the shareholders are requested to refer to the Finance Act, 2020 and amendments thereof. Kindly note that the Company is extending the opportunity for the shareholders to submit the aforesaid declarations and documents in order to enable the Company to determine and deduct appropriate TDS / withholding tax rate. The aforesaid documents such as Form 15G / 15H, documents under section 196, 197A, etc. can also be uploaded on the link https://web.in.mpms.mufg.com/formsreg/submission-of-form-15g-15h.html. Apart from the above, since the TDS / Withholding rates are different for resident and non-resident Members, if there is a change in your residential status, as per the provisions of the Act, you are requested to get your residential status updated in your demat account or the physical folio, as applicable, before the Record Date.

Members who have not updated their email addresses / bank account details for receiving the dividends directly in their bank accounts through electronic remittance may follow the procedure given below

Physical Holding | Visit the link: https://web.in.mpms.mufg.com/EmailReg/Email Register.html

and follow the registration process as guided therein. Members are requested to provide details such as Name, Folio Number, Certificate number, PAN, e-mail ID along with a copy of cheque leaf with the first named members name imprinted in the face of the cheque leaf containing bank name and branch, type of account, bank account number, MICR details and IFSC code and a duly signed request letter. Members are requested to register their email addresses and bank

account details with their respective DP by following the procedure prescribed by DP.

In case of any query with regard to registration / Updation of email address or bank account details or matters relating to TDS on Dividend, members may contact the Company by sending an e-mail (quoting the Folio No. / DP ID & Client ID) at investorinfo@acutaas.com or Company's Registrar and Transfer Agent ("RTA") i.e. MUFG Intime India Private Limited at rnt.helpdesk@in.mpms.mufg.com The above information is being issued for the benefit of all the Members of the Company in

compliance with the Circulars. By order of the Board of Directors

For ACUTAAS CHEMICALS LIMITED

Company Secretary & Compliance Officer

CS Ekta Kumari Srivastava

MOONGIPA CAPITAL FINANCE LTD. MOONGIPA CAPITAL FINANCE LIMITED

Registered Office: 18/14, W.E.A. Pusa Lane, Karol Bagh, New Delhi – 110005, India **Email:** moongipac@gmail.com | **Website:** www.mongipa.com Corporate Identification Number: L65993DL1987PLC028669 NOTICE TO THE MEMBERS REGARDING THE 38[™] ANNUAL

GENERAL MEETING ("AGM") OF MOONGIPA CAPITAL FINANCE LIMITED NOTICE is hereby given that the 38th Annual General Meeting of the Members of Moongipa Capital Finance Limited ("the Company") will be held on Thursday,

September 25, 2025 at 01:00 P.M (IST) through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM"), pursuant to the applicable provisions of the Companies Act, 2013, the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, read with MCA Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 and SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD-PoD-2/CIR/2024/133 dated October 3, 2024, to transact the businesses as set out in the Notice convening the 38th AGM.

In compliance with the said Circulars, the Notice of the AGM along with the Annual Report for FY 2024-25 ('Annual Report') will be sent in due course only through electronic mode to those Members whose email ids are registered with the Company/ Registrar and Transfer agent ('RTA') and Depository Participants ('DP'), those Members who have not registered their e-mail address so far, are requested to register their e-mail address for receiving all communication including Annual Report, Notices, Circulars, etc. from the Company

Appeal to Members to Register their E-mail ID and KYC Details:

In case shares are held in Such shareholders are requested to register their physical mode

E-mail ID with the Registrar and Share Transfer Agent (RTA) of the Company viz. Skyline Financial Services Pvt. Ltd by sending request to Company RTA on admin@skylinerta.com or the company at moongipac@gmail.com. The said request be accompanied with Form ISR-1 for KYC updation.

In case shares are held in demat mode

exchange www.bseindia.com.

Dated: August 29, 2025 Place: New Delhi

Such shareholders are requested to register their E-mail ID with the relevant Depository Participant(s).

Those physical shareholders who have not yet submitted Form ISR-1, ISR-2, SH-13/ SH-14 are requested to submit the same to RTA/Companies at the earliest. Those shareholders who are holding shares in dematerialized mode are requested to ensure that

aforesaid KYC details and nomination are updated with their Depository Participant.

ID to register their email address for the limited purpose of receiving the Notice of 38th AGM and Annual Report for the Financial Year 2024-25. The Company is providing the remote e-Voting facility before the AGM and e-Voting facility at the AGM to its members to exercise their right to vote on all the resolutions set forth in the Notice and proposed to be transacted at the AGM by electronic means. The facility of

Further members holding shares in demat form can also send email ID to aforesaid email


casting votes will be provided by NSDL. The Members who had already casted their vote by remote e-Voting prior to the AGM may also attend/participate in the AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their vote again at the AGM. Detailed process and manner of remote e-Voting, e-Voting at the

AGM and instructions for attending the AGM through VC/OAVM is being provided in the Members may follow the instructions for remote e-Voting as well as e-Voting at the AGM as

provided in the Notice of the AGM. If you have any queries or issues regarding attending AGM and e-Voting from the NSDL e-Voting System, you can write an email to evoting@nsdl.co.in or call on toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30. Candidature for the appointment of Whole-time Director- Notice is also hereby given that pursuant to Section 160 of the Companies Act, 2013 read with rule 13 of Companies

(Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014, the Board of Directors has received a notice in writing, from a member, proposing the candidature of Dr. Pooja Jain (DIN: 00097037) for re-appointment as the Whole-time Director for further (5) five years in the 38th AGM of the Company Notice convening the 38th AGM and the Annual Report for the Financial Year 2024-25 will also be available on the website of the Company at www.mongipa.com and of the stock

> For Moongipa Capital Finance Limited On behalf of the Board of Directors Sandeep Singh Company Secretary and Compliance Officer



Place : Surat

Date : August 29, 2025

New Delhi

Punjab & Sind Bank पंजाब एएड सिंध वेंक शाखाः मलकागंज ए-11 कमला नगर मलकागंज, दिल्ली- 110009 **ई-मेल**: d0356@psb.co.in

संदर्भ : पीएसबी/बीओ मलकागंज/2025-26/003 1. श्री दिलीप कुमार झा पुत्र श्री सुशील झा.

प्रोप. मैसर्स सौरभ गारमेंटस, निवासी : बी-2251, गली नं. 33, पहला पुस्ता, सोनिया विहार, अन्य पता यहां पर भी : डी-99, गली नं. 1, मुकुंद विहार, करावल नगर, दिल्ली- 110094

2. श्रीमती मधु झा पत्नी श्री दिलीप कुमार झा निवासी : बी–2251, गली नं. 33, पहला पुस्ता, सोनिया विहार, दिल्ली– 110094

संदर्भ : मैसर्स सौरभ गारमेंट्स प्रोप. श्री दिलीप कुमार झा का खाता 03561300004050 शाखा कार्यालय मलकागंज, कमला नगर, नई दिल्ली- 110009 जोनल ऑफिस दिल्ली-।। के अंतर्गत प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पिटत वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पूनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 ("सरफेसी अधिनियम") की धारा 13(8) के अंतर्गत आप में निहित अधिकार के अनुसार मोचन की सुचना।

जैसा कि आप जानते हैं, बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने आपके द्वारा विषयक ऋण खाता के अंतर्गत प्रतिभृति के रूप में प्रस्तृत प्रतिभृत परिसंपत्ति में प्रतिभृति हित प्रवर्तन करने के एक उपाय के रूप में, 19-03-2015 को सरफेसी अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत एक मांग सूचना

इसके बाद, प्राधिकृत अधिकारी ने अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत आगे की कार्रवाई करते हये 29-09-2015 को प्रतिभूत परिसंपत्ति (संपत्ति विवरण संलग्न हैं) का कब्जा ले लिया है। चूँिक आप बैंक के प्रति निर्धारित अपने दायित्वों का निर्वहन करने में विफल रहे हैं, अतः अधोहस्ताक्षरकर्ता ने प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के अंतर्गत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुये उपर्युक्त वर्णित उधारकर्ताओं एवं जमानतदारों की ओर से बैंक को देय ऋणों की वसुली हेतु ई-नीलामी के माध्यम से नीचे वर्णितानुसार संपत्तियों / प्रतिभृत परिसंपत्तियों को बेचने का निर्णय लिया है।

आपका ध्यान प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(8) की ओर आकृष्ट किया जाता है, जो प्रतिभृति परिसंपत्तियों को ऋण से मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय (अर्थात् 30 दिन) के संबंध में है। कृपया ध्यान दें कि धारा 13(8) के अंतर्गत आपका अधिकार सार्वजनिक नीलामी के लिए सूचना के प्रकाशन या प्रतिभूत परिसंपत्ति का पट्टा, समनुदेशन या बिक्री के माध्यम से हस्तांतरण के लिए सार्वजनिक या निजी संधि से कोटेशन या निविदा आमंत्रित करने की तिथि से समाप्त हो जाएगा।

अचल संपत्ति की बिक्री हेत् बिक्री सूचना के विवरण इस प्रकार हैं :

प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री हेतू ई-नीलामी बिक्री सूचना। : 14-10-2025 को मध्या. 11:00 से अपराह 1:00 बजे तक

ई-नीलामी तिथि एवं समय : 08-10-2025 को मध्या. 11:00 से अपराह्न 1:00 बजे तक निरीक्षण तिथि एवं समय बोली प्रस्तृत करने की अंतिम तिथि : 13-10-2025 को सायं 5:00 बजे तक

उधारकर्ता : मैसर्स सौरभ गारमेंट्स उधारकर्ता एवं गारंटर प्रोप. श्री दिलीप कुमार झा गारंटरगण : श्रीमती मधु झा मांग सूचना की तिथि तथा 19-03-2015 रू. 17,56,933/- प्लस भविष्य का ब्याज तथा लागतें जो 01-01-2015 से प्रभावी है। राशि, खाता विवरण 03561300004050 रू. 1,08,16,441.28/- प्लस राशिपर ब्याज 31-07-2025 के अनुसार (खाता 03561300004050) कुल बकाया

संपत्तियों के विवरण एमआरपी (करोड़ में) सं.बी 2251 धारक संपत्ति के समस्त वह भाग तथा अंश जो गली नं. 33, पहले पुस्ता, सोनिया विहार, दिल्ली- 110094 में स्थित, श्रीमती मधु झा पत्नी श्री दिलीप कमार झा के नाम में प्रविष्ट तथा निम्नानसार परिसीमित है :

अन्य की संपत्ति गली 15 फुट चौड़ी अन्य की संपत्ति

> प्राधिकृत अधिकारी पंजाब एण्ड सिंध बैंक

> > अनुलग्नक सी

दिनाक: 25/08/2025

पंजाब एण्ड सिंघ बेंक Punjab & Sind Bank पता : 2612/13, नया बजार दिल्ली — 110006 (डी0175)

फोन : 011-41007291 ई-मेल : d0175@psb.co.in

संदर्भः बिक्री सूचना L सुश्री कविता परनी श्री i अशोक वर्मार

1206, गली नंबर 11, सदर नाला रोड, सदर बाजार, दिल्ली-110006 2. श्री, प्रदीप कुमार पुत्र स्व. अशोक कुमार 206, गली मंबर 11, सदर नाला रोड, सदर बाजार, दिख्ली-110006

 श्री, ओंकार नाथ पुत्र स्व, संतराम 9433, गली नंबर 10, सदर नात्सा रोड, सदर बाजार, दिल्ली-110006

4. मैसर्स संदर प्लारिटका प्रोप सुश्री कविता पत्नी श्री, अशोक कुमार

1206: गली नंबर 11, सदर नाला रोड, सदर बाजार, दिल्ली-110008 रजि: प्रतिभृतिकरण और वित्तीय परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण और प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम्

2002 ("सरफेसी अधिनियम") की घारा 13 (8) के तहत आपके साथ निहित अधिकार के संदर्भ में मोचन के लिए नोटिस, सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) के प्रावधान के साथ पढ़ें, संपत्ति खाता संख्या 03201300004155 और ईसीएलटीएल खाता संख्या 03201200000479 के खिलाफ मेसर्स सुंदर प्लास्टिक (प्रोप. सुश्री कविता) ओढी खाता संख्या 03201200000479 के नाम पर औ प्रदीप कुमार पुत्र श्री अशोक कुमार, नया बाजार शाखा।

जैसा कि आप जोनते हैं कि बैंक के प्राधिकृत अधिकारों ने आपके द्वारा विषयगत ऋण खाते में सुरक्षा के रूप में प्रस्तुत सुरक्षित परिसंपत्ति में सुरक्षा हित के प्रवर्तन के उपाय के रूप में 21-04-2022 को सरफेसी अधिनियम की धारा 13(2) के तहत मांग नोटिस जारी किया है

इसके बाद, प्राधिकृत अधिकारी ने अधिनियम की घारा 13(4) के तहत आगे की कार्रवाई करते हुए 24-06. 2022 को सुरक्षित परिसंपत्ति पर कब्जा ले लिया।

चुकि आप बैंक के प्रति अपने दायित्वों का निर्दहन करने में असफल रहे हैं, इसलिए, अधोहस्ताक्षरी ने प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निमांण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनिधम, 2002 की धारा 13(4) के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए, उपर्युक्त जधारकर्ता एवं जमानतदारों से बैंक को देय ऋणों की वसूली के लिए ई-नीलामी के माध्यम से नीचे वर्षित सुरक्षित आस्तियों की संपत्तियों को बेचने का निर्णय लिया है।

आपका व्यान वित्तीय आरितयों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की घारा 13(8) की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसे प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के निवम 8(8) के प्रावधान के लाथ पढ़ा जाता है, जिसमें प्रतिभृति आस्तियों के मोचन हेत् उपलब्ध समय (अर्थात 30 दिन) का उल्लेख है। कृपया ध्यान दें कि धारा 13/8) के तहत आपका अधिकार सार्वजनिक नीलामी हेतु सूधना के प्रकाशन या पहे, समनुदेशन या बिळी के माध्यम से हस्तांतरण हेतु सार्वजनिक या निजी सींघे से कोटेशन या निविदा आमंत्रित करने की तिथि से समाप्त हो जाएगा

अवल संपत्ति की बिक्री के लिए बिक्री नोटिस का विवरण निम्नानसार है:-वित्तीय आस्तियों के प्रतिमृतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिमृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्यत अचल आस्तियों की बिक्री के लिए ई-मीलामी विक्री सूचना, प्रतिमृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम

ई नीलामी तिथि और समय 14-10-2025, सुबह 11:00 बजें से दोपहर 1:00 बजें तक निरीक्षण विधि और समय : 08-10-2025, सुबह 11:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे वक

बोली जमा करने की अंतिम तिथि : 13-10-2025, शाम 5:00 बजे तक सुश्री कविता पत्नी श्री अशोक कुमार (मेसर्स सुंदर प्लास्टिक) उधारकर्ता और गारंटर

के मालिक – संधारकर्ता), भी प्रदीप कुमार पुत्र श्री अशोक का नामः कुमार (गारंटर), श्री ऑकार नाथ पुत्र श्री संत राम (गारंटर) श्री प्रदीप कुमार पुत्र श्री अशोक कुमार (उधारकर्ता), सुश्री कविता पत्नी श्री अशोक कुमार (गारंटर) मांग सूचना की तिथि और 1) 21.04.2022 को ₹5,63,499.00 (ODP खाता संख्या राशि, खाता विवरणः 03201300004155) और ₹98,423.69 (ECLTL खाता संख्या

03201200000479) मेंसर्स सुंदर प्लास्टिक के नाम पर खाता 2) 21.04.2022 को ₹3,05,255.00 (ODP खाता संख्या 03201300004179) और ₹52,787.00 (ECLTL साता संस्था 03201200000478) श्री प्रदीप कुनार पुत्र श्री अशोक कुमार के नाम पर खाता क्ल - **₹10,19,964.69** /-

कुल बकाया राशि ₹. 15,94,278.80 24.08.2025 可事

संपत्तियों का विवरण बधिकतम खुदरा मृत्य (करोड़ रूपये में) संपत्ति का वह पुरा भाग जिसमें भूतल निर्मित है, संपत्ति संख्या | 15,30,000 / - | रूपये 1120-1121, भूमि माप क्षेत्र 70 वर्ग गज, गली ग्यारा, वर्तन (क्वेवल पंद्रह लाख तीस मार्केट, सदर बाजार, सदर नाला रोड, दिल्ली, दिल्ली – इजार रुपये) 110006, दिनांक 20.07.2004 के विक्रय विलेख के अनुसार, पंजीकरण संख्या ४५७७, पुस्तक संख्या १, खंड संख्या १११३, पृष्ट 125 से 133, उप पंजीयक उप जिला संख्या 1, दिल्ली कें कार्यालय में पंजीकृत। संपत्ति की सीमा इस प्रकार है – उत्तर – अन्य संपत्ति से दक्षिण - अन्य संपत्ति से पूर्व - मली से पश्चिम - अन्य संपत्ति से

> प्राधिकृत अधिकारी पंजाब एंड सिंघ बैंक

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

CawSikho

एडिक्टिव लर्निंग टेक्नोलॉजी लिमिटेड (पूर्व में एडिक्टिव लर्निंग टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड) (सीआईएन: L74110HR2017PLC118029)

पंजीकृत कार्यालयः स्पेस क्रिएटर्स हाइटस, तीसरी मंजिल, लैंडमार्क साइबर पार्क, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन, सेक्टर 67, गुडगांव, हरियाणा, भारत, 122002 फोन नंबर: +91 8047486192, ई-मेल: compliance@lawsikho.in

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी ")/अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यमों ("ओएवीएम") के माध्यम से आयोजित होने वाली 8वीं वार्षिक आम बैठक के संबंध में सूचना

आपको सूचित किया जाता है कि एडिक्टिव लर्निंग टेक्नोलॉजी लिमिटेड (''कंपनी'') की 8वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) शुक्रवार, 26 सितंबर 2025, को पूर्वीह्न 11.00 बजे (आईएसटी) को वीसी / ओएवीएम के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') और उसके अधीन बनाए गए नियमों के सभी लाग प्रावधानों एवं 19 सितंबर, 2024 के नवीनतम सामान्य परिपत्र संख्या 09 / 2024 और कॉर्पीरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा पहले जारी किए गए अन्य संबंधित परिपत्रों के साथ पठित भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी परिपत्र संख्या सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएफडी - पीओडी - 2 / पी / सीआईआर / 2024 / 133 दिनांक 03 अक्टूबर, 2024 और इस संबंध में जारी अन्य लागू परिपत्रों (सामृहिक रूप से ''परिपत्र'' के रूप में संदर्भित) के अनुपालन में आयोजित की जाएगी।

उपरोक्त परिपत्रों के अनुपालन में, नोटिस और वित्त वर्ष 2024–25 के लिए वार्षिक रिपोर्ट, नियत समय में, केवल इलेक्टॉनिक मोड़ के माध्यम से उन सभी सदस्यों को भेजी जाएगी जिनके ईमेल पते कंपनी / डिपॉजिटरी प्रतिभागियों (''डीपी'')के साथ पंजीकृत हैं। यह कंपनी की वेबसाइट www.lawsikho.com, स्टॉक एक्सचेंज यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की www.nseindia.com और कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट ("आरटीए") यानी मां शितला सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड की www.maashitla.com पर भी उपलब्ध होगा। इसके अतिरिक्त, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ("सूचीबद्धता विनियम") के विनियम 36(1)(बी) के अनुसार, नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट का पूरा विवरण उपलब्ध कराने वाले सटीक पथ सहित वेब-लिंक प्रदान करने वाला एक पत्र उन शेयरधारकों को भेजा जाएगा, जिन्होंने कंपनी / आरटीए / डिपॉजिटरी प्रतिभागी(ओं) के साथ अपने ईमेल पते पंजीकत नहीं किए हैं। वीसी / ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों को अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम की गणना के उद्देश्य से गिना

वार्षिक आम बैठक में मतदान का तरीकाः

शेयरधारकों को वार्षिक आम बैठक के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वार्षिक आम बैठक की सचना में निर्धारित कार्यवाही पर दरस्थ रूप से या ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट देने का अवसर मिलेगा। डीमैट रूप में, भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों और जिन शेयरधारकों ने अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, उनके लिए वार्षिक आम बैठक के दौरान दरस्थ रूप से या ई–वोटिंग के माध्यम से मतदान करने का तरीका वार्षिक आम बैठक बुलाने की सचना में दिया जाएगा।

ईमेल पता पंजीकृत/अपडेट करने का तरीकाः

दिनांकः 29 अगस्त, 2025

स्थानः गुड़गांव

क) डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्य, जिन्होंने अपना ईमेल पता पंजीकृत / अपडेट नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे उस डिपॉजिटरी प्रतिभागी(यों) के पास अपना ईमेल पता पंजीकृत/अपडेट करें जहाँ वे अपने डीमैट खाते रखते हैं।

ख) इसके अलावा, एमसीए परिपत्रों के अनुसार, कंपनी ने सदस्यों को वित्तीय वर्ष 2024–25 की वार्षिक आम बैठक (ई-वोटिंग निर्देशों के साथ-साथ ई-वोटिंग सक्षम करने के लिए युजर आईडी और पासवर्ड सहित) की सचना सहित वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने के सीमित उद्देश्य के लिए कंपनी के साथ अपने ई-मेल पते को इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपडेट करने की सुविधा भी प्रदान की है। इसके लिए उन्हें gogreen@maashitla.com पर एक ईमेल भेजना होगा, साथ ही अनुरोध पत्र की हस्ताक्षरित और स्कैन की गई प्रति भी भेजनी होगी. जिसमें इलेक्ट्रॉनिक फोलियो के मामले में ई-मेल पता, मोबाइल नंबर, स्व-सत्यापित पैन की प्रति और क्लाइंट मास्टर कॉपी और भौतिक फोलियों के मामले में शेयर प्रमाणपत्र की प्रति शामिल हो।

> एडिक्टिव लर्निंग टेक्नोलॉजी लिमिटेड के निदेशक मंडल के आदेशानुसार हस्ताक्षरकर्ता / कोमल शाह

कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

कजारिया सिरामिक्स लिमिटेड

(सीआईएन : L26924HR1985PLC056150) पंजीकृत कार्यालय : एसएफ-11, द्वितीय तल, जेएमडी रीजेंट प्लाजा, महरौली, गुड़गांव रोड, ग्राम सिकंदरपुर घोसी, युडगाव, हरियाणा- 122001

दूरभाष : +91-124-4081281 कॉपॅरिट कार्यालय : जे-1 / बी-1 (एक्सटेंशन), मोहन को-ऑपरेटिव इंडस्ट्रियल एस्टेट, मध्रा रोड, नई दिल्ली- 110044

दुरमार्षः +91-11-26946409 फैक्सः +91-11-26946407 हमेल : investors@kajariaceramics.com वेबसाइट : www.kajariaceramics.com

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तथा अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों से आयोजित होनेवाली 39वीं वार्षिक आम बैठक और लाभांश की अभिलेख तिथि हेत् कंपनी के सदस्यों के ध्यानार्थ सूचना

कजारिया सिरामिक्स लिमिटेड ('कंपनी') के सदस्यों की 39वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') सोमवार, 29 सितंबर, 2025 को दोपहर 1:00 बजे (आईएसटी) पर वीडियो कॉन्क्रॉसिंग ('वीसी') / अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों ('ऑएवीएम') से, सामान्य स्थल पर सदस्यों की मीतिक उपस्थिति के बिना आयोजित की जाएगी, जो कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम'),के लागु प्रावधानों के अनुपालन में, इसके तहत बनाए गए नियमों और सेबी (सूत्रीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ('सूचीबद्धता विनियम) के साथ पठित कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 8 अप्रैल 2020 के परिपन्न संख्या 14/2020, दिनांक 13 अप्रैल 2020 के परिपन्न संख्या 17/2020, दिनांक 5 मई 2020 के परिपन्न संख्या 20/2020 और नवीनतम दिनांक 19 सिंतंबर 2024 के परिपन्न सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएफडी-पीओडी-2 / पी / सीआईआर / 2024 / 133 दिनांक 3 अक्टूबर 2024 (इसके बाद प्रासंगिक के रूप में संदर्भित) के साथ पढ़ा गया है, के अनुसार, कंपनी की एजीएम की सूचना में निर्धारित, व्यवसाय करने के लिए, जिसे एजीएम बलाने के लिये प्रसारित कियों जायेगा।

वित्तीय वर्षे 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना केवल उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी जाएगी जिनके ईमेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी के पास पंजीकृत हैं, सिवाय उन सदस्यों के जो इसकी भौतिक प्रति का अनुरोध करते हैं। कंपनी की वैबसाइट पर उपलब्ध वितीय विवरण, लेखा परीक्षक की रिपोर्ट, निदेशकों की रिपोर्ट और एजीएम की सूचना सहित वार्षिक रिपोर्ट के सभी अनुबंध और अनुलग्नकों सहित वेब-लिंक युक्त पत्र द्वारा उन सदस्यों को प्रसारित किया जाएगा जिनके ईमेल आईडी

कंपनी / डिपॉजिटरी के पास पंजीकृत नहीं हैं। सदस्यगण कृपया ध्यान दें कि उपरोक्त प्रलेख कंपनी की वेबसाइट www.kajariaceramics.com पर नेशनल सिक्योरिट्रीज डिपॉजिटरी लिमिट्रेड (एनएसडीएँल) की वेबसाइट www.nsdl.co.in पर और स्टॉक एक्सचेंजों, अर्थात बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com पर भी उपलब्ध कराए जाएँगे। सदस्यगण केवल वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से ही वार्षिक आम बैठक में भाग ले सकते हैं और वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों की गणना अधिनियम की धारा 103 के अंतर्गत कोरम के लिए गिना जाएगा। एजीएम में शामिल होने के निर्देश और रिमोट ई-वॉटिंग तथा एजीएम के दौरान ई-वॉटिंग की विस्तृत जानकारी एजीएम बुलाने की सूचना में दी जा रही है। कंपनी अधिनियम के लाग प्रावधानों और संबंधित परिपन्नों के अनुसार, कंपनी के सभी पात्र सदस्यों को एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग सुविधा (रिमोट ई-वोटिंग) और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग प्रणाली ('ई-वोटिंग') (सामृहिक रूप से 'इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग' कहा जाता हैं की सुविधा प्रदान कर रही है ताकि वै एजीएम में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रस्तावित समी प्रस्तावीं पर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। एनएसडीएल द्वारा एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने की सुविधा प्रदान की जाएगी। जो सदस्य एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डालेंगे वे वीसी/ओएवीएम के माध्यम से भी एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं / भाग ले सकते हैं, लेकिन उन्हें दोबारा योट डालने का अधिकार नहीं होगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के माध्यम से वोट डालने के लिए लॉगिन क्रेडेंशियल सदस्यों को उनके ईमेल पते. यदि कोई हो को अपडेट करने के बाद उपलब्ध कराए जाएँगे

जिन सदस्यों की ईमेल आईडी पहले से ही कंपनी / डिपॉजिटरी के पास पंजीकत हैं वे एजीएम की सूचना में दिए गए निर्देशों के अनुसार रिमोट ई-वोटिंग के सार्थ-साथ एजीएम के दौराने ई-वोटिंग के अनुदेषों का पालेंन कर सकते हैं। और जिन सदस्यों की इंमेल आईडी कंपनी/डिपॉजिटरीज़ में पंजीकृत नहीं हैं, वे अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत करने या अद्यतन करने के लिए नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं

कुपया अपना अनुरोध investors@kajariaceramics.com पर भेजें, जिसमें फोलियों संख्या, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्केन की गई प्रति (आगे और पीछे), पैन (पैन धारिता कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति) सम्मिलित हो।

त्यया अपना अनुरोध investors@kajariaceramics.com पर भेजें, जिसमे डीपीआईडी-सीएलआईडी (16 अंकों की डीपीआईडी+सीएलआईडी या 16 अंकों की लाभार्थी आईडी), नाम, क्लाइंट मास्टर या समेकित खाता विवरण की प्रति, पैन (पैन कार्ड की रव-सत्यापित स्कैन की गई प्रति), आधार (आधार कार्ड की रव-सत्थापित स्कैन की गई प्रति) सम्मिलित हो।

कंपनी के निदेशक मंडल ने 6 मई, 2025 को आयोजित अपनी बैठक में, 1 रुपये अंकित मुल्य वाले प्रत्येक इविवटी शेयर पर 4 रुपये के अंतिम लाभाश की मंजूरी दी है और इस सबंध में, सुधीबद्धता विनियमों के विनियम 42 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी ने उक्त अंतिम लाभौश के लिए कंपनी के सदस्यों की पात्रता निर्धारित करने के उद्देश्य से शुक्रवार 12 सितंबर 2025 को 'रिकॉर्ड तिथि' के रूप में निर्धारित किया है। येदि कंपनी की 39वीं एजीएम में अंतिम लाभांश घोषित किया जाता है, तो इसक भूगतान मंगलवार 28 अक्टूबर 2025 को या उससे पहले उन सदस्यों को किया जाएग

जिनके नाम रिकॉर्ड तिथि को कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर और डिपॉजिटरी द्वार बनाए गए लाभार्थी मालिकों के रजिस्टर में दर्ज हैं। कंपनी के इक्विटी शेयर डीमैट फॉर्म में रखने वाले सदस्यगण जिन्होंने अपने बैंक् विवरण, नामांकन का विकल्प पंजीकत नहीं किया है, उन सदस्यों से अनुरोध है कि वे उक्त विवरण दर्ज करने के लिए अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों से संपर्क करें भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यगण जिनके पैन, बैंक खाते सहित अपने केवाईसी पंजीकृत न कराने वाले सदस्यों से अनुरोध है investors@kajariaceramics.com या admin@mcsregistrars.com पर उक्त विवरण उपलब्ध कराये क्योंकि कंपनी द्वारा भौतिक रूप में कंपनी के इक्विटी शेयर

रखने वाले सदस्यों को भीतिक वारंट जारी करके कोई लाभांश नहीं दिया जाएगा।

कोई भी व्यक्ति, जो कंपनी के शेयर प्राप्त करता है और एजीएम की सचना मेजे जाने के बाद कंपनी का सदस्य बनता है और कट-ऑफ तिथि अर्थात सोमवीर 22 सितंबर को शेयर धारण करता है, वह evoting@nsdl.com य admin@mcsregistrars.com पर एक अनुरोध (नाम, आईडी-क्लाइंट ऑईडी, जैसा भी मामला हो और शेयरधोरिता के साथ) भेजकर यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। यदि सदस्य की ईमेल आईडी कंपनी / डिपॉजिटरी के साथ पहले से पंजीकृत है, तो ई-वोटिंग के लिए लॉगिन विवरण संबंधित सदस्य के पंजीकृत ईमेल पते पर भेजे जा रहे हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के लिए इन्ही क्रेडेंशियल का उपयोग किया जाना चाहिए। इलेक्टॉनिक माध्यम से मतदान से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए, आप शेयरधारकों व लिए प्रायः पूछे जानेवाले प्रश्न (एफएक्यू) और शेयरधारकों के लिए रिमोट ई-वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका देख सकते हैं, जो www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड

अनुभाग में उपलब्ध है या पल्लवी म्हान्ने, वरिष्ठ प्रबंधक, एनेएसडीएल, तृतीय तल, नमन चैबेर, प्लॉट सी–32, जी–ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा पूर्व, मुंबेई– 400051 से ईमेल evoting@nsdl.com के माध्यम से अथवा 022-48867000 पर कॉल करके

स्थान : नई दिल्ली

दिनोंक : 29 अगस्त 2025

राम चंद्र रावत सीओओ (ए एंड टी) तथा कंपनी सचिव

कृते कजारिया सिरामिक्स लिमिटेड

हस्ता./-

कान्टीनेंटल सिक्योरिटिज लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः फ्लैंट नं. 301, मेटो प्लाजा, परिवाहन मार्ग, जयपर-302001 (राजस्थान), ई: मेल: continentalsecuritieslimited@gmail.com, चेबमाईर : www.continentalsecuritieslid.com

फोन : 0141-4586384, CIN : L67120RJ1990PLC005371 शेयरधारकों को भौतिक शेयरों के हस्तांतरण अनुरोधों को पन: प्रस्तत करने के लिए विशेष विंडो की सचना

2 जलाई 2025 के परिपन्न संख्या SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-POD/P/CIR/2025/97 के अनसरण में. 6 जनवरी 2026 तक की अवधि के लिए एक बार के लिए विशेष विंडो खोली गई है, जिससे शेवरधारकों को कॉन्टिनेंटल सिक्योरिटीज लिमिटेंड के उन हस्तांतरण विलेखों को पन: जमा करने का अवसर मिलेगा जो 1 अप्रैल 2019 से पहले जमा किए गए थे और दस्तावंज प्रसंस्करण में किसी अन्य कमी के कारण अस्वीकृत/वापस कर दिए गए थे/उन पर ध्यान नहीं दिया गया था। इस विंडो अवधि के दौरान, हस्तांतरण के लिए पन: जमा किए गए शेयरों का प्रसंस्करण केवल डीमैट रूप में ही किया जाएगा।पात्र शेयरधारक जो इस अवसर का लाभ उठाना चाहते हैं, वे आवश्यक दस्तावेजों के साथ कंपनी के रजिस्टार और ट्रांसफर एजेंट, बीटल फाइनेशियल एंड कंप्यूटर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटंड, के कार्यालय, बीटल हाउस, तीसरी मंजिल, 99, मदनगीर, एलएससी के पीछे, नई दिल्ली - 110062, को स्थानांतरण अनुरोध प्रस्तुत कर सकते हैं। फोन: Ph. 011-42959000-09, 011-29961281-283, 26051061, 26051064, अधिक जानकारी के लिए कपया 2 जुलाई, 2025 के सेबी परिपत्र SEBI/HO/MIRSD/ MIRSD PoD/P/CIR/2025/97 के लिंक पर जाएँ या continentalsecuritieslimited@gmail.com. पर ईमेल भेजें। नोट: सभी सदस्यों से अनुरोध है कि वे कंपनी/आरटीए/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ ईमेल आईडी सहित अपना केवाईसी अपडेट करें। कते कान्टीनेंटल सिक्योरिटिज लिमिटेड

दिनांक : 29.08.2025

प्रविता खण्डेलवाल (कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी)



जमना ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड सीआईएन: L35911HR1965PLC004485

पंजी. कार्यालयः जय स्प्रिंग्स रोड, औद्योगिक क्षेत्र, यमुना नगर–135001, हरियाणा टेलीफोनः 0129-4006885, वेबसाइटः www.jaispring.com

ईमेल आईडी: investor.relations@jaispring.com भौतिक रोयरों के हस्तांतरण अन्रोध को पूनः जमा करने के लिए विशेष खिड्की का खुलना

रतदद्रारा सचित किया जाता है कि सेबी परिपत्र संख्या सेबी एचओ एमआईआरएसडी / एमआईआरएसडी पीओडी आईपीआईसी आईआरआई 2025/97 दिनांक 2 जुलाई, 2025 के अनुसार, 7 जुलाई, 2025 से 6 जनवरी, 2026 तक छह (6) महीनों की एक विशेष खिडकी भौतिक शेयरों के हस्तांतरण विलेखों को पन: जमा करने के लिए शुरू की गई है, जो 1 अप्रैल, 2019 से पहले कंपनी/आरटीए में जमा किए गए थे और जिनके अनुरोधों को अस्वीकार कर दिया गया था, वापस कर दिया गया था या किमयों के कारण उन पर ध्यान नहीं दिया गया था। पात्र निवेशक 6 जनवरी, 2026 को या उससे पहले आवश्यक दस्तावेजों के साथ कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (''आरटीए'') के पास ऐसे ट्रांसफर डीड पुनः जमा कर सकते हैं। निवेशकों को एतद्दवारा सूचित किया जाता है कि उक्त परिपत्र के अनुसार, ट्रांसफर के लिए पुनः जमा की गई प्रतिभृतियाँ ट्रांसफर-कम-डीमैट के लिए उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद केवल डीमैट फॉर्म में जारी की जाएंगी। निवेशक इस विषय पर किसी भी स्पष्टीकरण के लिए आरटीए से भी संपर्क कर सकते हैं। कंपनी के रजिस्ट्रार

और टांसफर एजेंट का विवरण निम्नलिखित है: स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, डी–153 पहली मंजिल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-I, नई दिल्ली-110020, फोनः 011-40450193-197, ईमेलः grievances@skylinerta.com; parveen@skylinerta.com.

कृते जमना ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड हस्ताक्षरकर्ता / -स्थान: फरीदाबाद प्रवीण लखेड़ा

कंपनी सचिव एवं कानूनी प्रमुख

केनरा बैंक Canara Bank

क्षेत्रीय कार्यालय : बी-35, साइबर मीडिया बिल्डिंग, सेक्टर-32, गुरुग्राम-122022

दिनांकः 29 अगस्त, 2025

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल

आस्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना एतद्वारा जनसामान्य को तथा कर्जदार(रों) एवं जमानती(यों) को सुचित किया जाता है कि प्रतिभृत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल संपत्ति, जिसका कब्जा सम्बन्धित केनरा बैंक शाखाओं के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, को निम्नलिखित विवरणों के सेवा प्रदाताओं द्वारा आयोजित ई-नीलामी द्वारा 'जहां है जैसा है'', ''जो है यही है'' तथा ''जो कुछ भी है वहीं है'' आधार पर बिक्री की जायेगी।

ईएमडी प्राप्त करने की अंतिम तिथि 29.09.2025 शाम 5.00 बजे है (ऑफलाइन या ऑनलाइन)

ई-नीलामी की तिथि 30.09.2025 दोपहर 12:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक है

(बिक्री के समापन तक प्रत्येक 5 मिनट की अवधि के असीमित विस्तार के साथ) शाखा का नाम/ई-मेल/फोन नं. अचल/चल सम्पत्तियों का आरक्षित मूल्य/ कुल देयताएं संक्षिप्त विवरण ईएमडी (रु. में) केनरा बैंक गुरुग्राम डीएलएफ फेज-कर शाखा मोहम्मदपुर झाडसा, सरकारी स्कल के पास, गुडगांव में आवासीय मकान, 04.03.2025 को कुल देयताएँ: कब्जे का प्रकार प्राधिकत अधिकारी: श्री एस राजंगम (मो) र. 12.57.440.00 तथा अतिरिक्त खेवट संख्या 143, खाता संख्या 166, रेक्ट संख्या 32, किला संख्या 2/2 (1-7082009439, 7496918245, ईमेल ब्याज और अन्य शुल्क (वसुली, 19) और क्षेत्रफल 100 वर्ग गज, श्रीमती मीना के नाम पर। सीमाः पूर्व- अन्य ₹. 35,98,000/- ₹. 3,59,800/cb18225@canarabank.com. हेल्पडेस्क यदि कोई हो, घटाकर) सांकेतिक कब्जा नंबर मो.: 8291220220. ईमेल आईडी: संपत्ति, पश्चिम- गली उत्तर- दली चंद की संपत्ति, दक्षिण- जगराम की संपत्ति Support.ebkray@psballiance.com कर्जदारः 1. श्रीमती मीना पत्नी श्री भगवत दयाल, निवासी खेवट संख्या 143, खाता संख्या 166, सरकारी स्कूल के पास, मोहम्मदपुर झाड़सा, गुड़गांव, UZ¶fAffBMX https://baanknet.com

तिथि: 30.08.2025 स्थान: गुरुग्राम

क) संपत्ति/संपत्तियों को ''जैसी है जहाँ है'' स्थिति में बेचा जाएगा, यदि कोई हो तो उस पर कोई ऋणभार भी शामिल होगा। (बैंक के संज्ञान में कोई ऋणभार नहीं है। ऋणभार के विवरण के लिए, नीचे दिए गए 7(घ) में उल्लिखित धरोहर राशि जमा करने से पहले अधोहस्ताक्षरी से संपर्क करें)

ख) संपत्ति/संपत्तियों को आरक्षित मृल्य से कम पर नहीं बेचा जाएगा।

ग) संपत्ति का निरीक्षण 26.09.2025 को सुबह 10.00 बजे से दोपहर 02.00 बजे के बीच किया जा सकता है।

घ) इच्छक बोलीदाता 29.09.2025 को शाम 05.00 बजे तक प्राधिकत अधिकारी. केनरा बैंक के पक्ष में डीडी/आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से आरक्षित मल्य का 10% धरोहर राशि जमा करेंगे। ङ) बिक्री सफल बोलीदाता के पक्ष में पुष्टि की जाएगी, बशर्ते कि प्रतिभूति लेनदार द्वारा इसकी पुष्टि की जाए।

च) सफल बोलीदाता को बिक्री मुल्य का 25% (पहले से भुगतान की गई ईएमडी सिहत) उसके पक्ष में बिक्री होने के तुरंत बाद जमा करना होगा और शेष राशि बिक्री की पृष्टि की तारीख से 15 दिनों के भीतर

जमा करनी होगी। यदि सफल बोलीदाता ऊपर बताए अनुसार बिक्री मूल्य का भुगतान करने में विफल रहता है, तो उसके द्वारा की गई जमा राशि जब्त कर ली जाएगी। छ) लागू होने पर सभी परिवहन, स्टांप शुल्क और पंजीकरण आदि के लिए शुल्क केवल सफल बोलीदाता द्वारा ही वहन किया जाएगा।

ज) रु. 50 (पचास) लाख से अधिक की बिक्री आय के लिए, बिक्री राशि का 1% की दर से टीडीएस देय होगा, जो सफल खरीदार द्वारा अलग से देय होगा।

झ) प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताए नीलामी के नियमों और शर्तों को स्थगित / रद्द या बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

अंचल कार्यालय या संबंधित शाखा, जो सुविधा केंद्र के रूप में, आगे की जानकारी के लिए आवश्यक व्यवस्था करेगी: संपर्क नंबर: फोन: 0129-2413997 ईमेल आईडी: rofbdrec@canarabank.com

पंजान नैशनल वैंतः ...भरोसे का प्रतीक !

कब्जा सूचना

अधिकृत प्राधिकारी केनरा बैंक

आस्ति वसूली प्रबंधन शाखा सर्किल ऑफिस आगरा :-1-2, रघुनाथ नगर, महात्मा गाँधी मार्ग, आगरा फोन नम्बर-0562-2525895, ईमेल-cs8182@pnb.co.in

अचल सम्पत्ति का कब्जा सूचना (प्रतिमृति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 (1) के अन्तर्गत)

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण व पुनर्गठन तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम–3 के साथ

सहपठित धारा--13 (12) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पंजाब नैशनल बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने निम्नलिखित बकायेदार ऋणियों / गारन्टरों / बंधककर्ताओं / कानुनी वारिसों को नोटिस में वर्णित राशि, नोटिस प्राप्ति के 60 (साठ) दिनों के अन्दर अदा करने हेतु खाते के सम्मुख अंकित तिथि को मांग नोटिस जारी किया था। ऋणियाँ / गारन्टरों / बंधककर्ताओं / कानूनी वारिसों के द्वारा इस राशि की अदायगी में विफल रहने पर एतदद्वारा आम जनता को एवं ऋणियों / गारन्टरों / बंधककर्ताओं / कानूनी वारिसों को विशेष रूप से सूचना दी जाती है कि नीचे वर्णित सम्पत्तियों का उपरोक्त अधिनियम की धारा-13 (4) एवं नियम के उपनियम-8 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी द्वारा आधिपत्य उनके सम्मुख अंकित तिथि को कर लिया गया है। उधारकर्ताओं का ध्यान सुरक्षित परिसम्पत्तियों को मुक्त कराने में उपलब्ध समय के सम्बंध में अधिनियम की घारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधान की ओर आकर्षित किया जाता है। एतदद्वारा ऋणियों / गारन्टरों / बंधककर्ताओं / कानूनी वारिसों को विशेषतः और जनसाधारण को सामान्यतः सूचित किया जाता है कि चूंकि निम्न सम्पत्तियों का सांकेतिक कब्जा / भौतिक कब्जा अधिग्रहण कर लिया गया है, अतः इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई भी सौदा / ध्यवहार बैंक के अतिरिक्त अन्य किसी से न करें एवं ऐसा कोई भी सौदा / व्यवहार पंजाब नैशनल बैंक को देय राशि व तत्सम्बन्धित ब्याज हेतु जैसा कि नीचे खाते के सम्मुख उल्लेखित किया गया है, के अध्याधीन होगा। ऋणियों / गारन्टरों / बंधककर्ताओं / कानूनी वारिसों का ध्यान, एक्ट के सेक्शन-13 के सब सेक्शन (8) की ओर आकर्षित किया जाता है, कि वे

उपलब्ध समय में बैंक के देयों को चुकता कर बंधक सम्पत्तियों को वापिस छुड़ा लें।

ऋणियों / गारन्टरो / बंधककर्ताओं के नाम व शाखा का नाम	बंधक सम्पत्तियों का विवरण	माँग सूबना दिनाक	कब्जा दिनाँक	मॉंग सूचना के अनुसार बकाया धनराशि
/ पार्टनर / मालिक / सदस्य:— 1. कौटिल्य एजुकेशन सोसायटी, 2. श्रीमती रेनु गुप्ता पत्नी श्री देवेन्द्र गुप्ता, 3. श्रीमती दीपा सिंह पत्नी श्री तजिन्दर पाल सिंह,	1. सान्यिक बंधक व्यावसायिक सम्पत्ति गाटा नम्बर 650, रिवत गीजा भगीतीपुरा परगना और जिला औरया, क्षेत्रफल-1.155 हेक्टयर, सम्पत्ति स्वागी-मेसर्स कीटिल्य एजुकंशन सोसायटी देव ग्राम तिलक नगर सिवय / प्रबंधक श्री देवेन्द्र गुप्ता पुत्र श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता, चौहद्दी टाइटल ढीढ के अनुसार-पूर्व-गाटा नम्बर 649, पश्चिम-चक रोड नाली के बाद गाटा नम्बर-651 और 652, उत्तर:-गाटा नम्बर-647 और 648, दक्षिण- गाटा नम्बर-651 और 653. 2. साम्यिक बंधक आवासीय सम्पत्ति प्लीट बाके मोहल्ला तिलक नगर, कस्वा औरया परगना और जिला औरया-206122, क्षेत्रफल-195.167 वर्ग मीटर, सम्पत्ति स्वागी-श्री देवेन्द्र गुप्ता पुत्र श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता, चौहद्दी टाइटल डीड के अनुसार-पूर्व-श्रीमती विमलेश का मकान, पश्चिम-रास्ता 22 फुट पक्का रोड, उत्तर-रोड 7.5 फुट चौड़ा, दक्षिण-अशोक और योगेश श्रीवास्तव का मकान। 3. साम्यिक बंधक आवासीय सम्पत्ति रिचत प्लॉट नम्बर बी-111, एमआईजी, सेक्टर-बी, शास्त्रीपुरम् योजना, लोहामंडी वार्ड, तहसील और जिला आगरा, क्षेत्रफल-120.40 वर्ग मीटर, सम्पत्ति स्वामिनी-श्रीमती दीपा सिंह पत्नी श्री तजिन्दर पाल सिंह, चौहद्दी टाइटल डीड के अनुसार-पूर्व-एमआईजी प्लॉट नम्बर बी-110, पश्चिम-मकान नम्बर-एमआईजी बी-112, उत्तर-रारता 12.19 मीटर चौड़ा, दक्षिण-एमआईजी प्लॉट।	13.09.2018	27.08.20	रेंग, 4,99,91,592.33/- (धार करोड़ निन्यानवे लाख इक्यानवे हजार पाँच सी बानवे रुपये और तैंतीस पैसे मात्र) दिनांक 31.08.2018 तक + ब्याज व अन्य देय खर्च जोकि दिनांक 01.09 2018 से ।
स्थान-आगरा, दिनांक 27.08.2	025		ţ	गधिकृत अधिकारी

INDIAN EXPRESS GROUP

THE LATEST IN BUSINESS THE LA

TRENDS

♦ FINANCIAL EXPRESS